

सं. 11 ई : चलनिधि समुच्चय (बकाया राशि)

(करोड़ रुपए)

माह/वर्ष	एनएम ₃	डाक घर जमाराशि	एल ₁	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं					एनबीएफसी के पास जनता की जमाराशियां	एल ₃
				मीयादी मुद्रा उधार	जमा प्रमाण पत्र	सावधि जमाराशि	कुल	एल ₂		
1	2	3	4 = (2 + 3)	5	6	7	8 = (5 + 6 + 7)	9 = (4 + 8)	10	11 = (9 + 10)
2006-07										
अप्रैल	27,84,870	1,04,700	28,89,570	2,656	31	245	2,932	28,92,502		
मई	27,88,309	1,05,852	28,94,161	2,656	31	245	2,932	28,97,093		
जून	28,01,910	1,07,171	29,09,081	2,656	31	245	2,932	29,12,013	22,623	29,34,636
जुलाई	28,46,674	1,08,492	29,55,166	2,656	31	245	2,932	29,58,098		
अगस्त	28,90,648	1,09,931	30,00,579	2,656	31	245	2,932	30,03,511		
सितंबर	29,65,004	1,11,023	30,76,027	2,656	31	245	2,932	30,78,959	25,578	31,04,537
अक्टूबर	29,59,088	1,11,997	30,71,085	2,656	31	245	2,932	30,74,017		
नवंबर	30,03,159	1,13,240	31,16,399	2,656	31	245	2,932	31,19,331		
दिसंबर	30,21,659	1,14,365	31,36,024	2,656	31	245	2,932	31,38,956	24,623	31,63,579
जनवरी	30,84,491	1,14,759	31,99,250	2,656	31	245	2,932	32,02,182		
फरवरी	31,52,724	1,14,804	32,67,528	2,656	31	245	2,932	32,70,460		
मार्च	33,24,598	1,15,549	34,40,147	2,656	31	245	2,932	34,43,079	24,019	34,67,098
2007-08										
अप्रैल	33,28,080	1,15,589	34,43,669	2,656	31	245	2,932	34,46,601		
मई	33,43,020	1,16,135	34,59,155	2,656	31	245	2,932	34,62,087		
जून	33,96,184	1,16,573	35,12,757	2,656	31	245	2,932	35,15,689	24,215	35,39,904
जुलाई	34,62,951	1,16,874	35,79,825	2,656	31	245	2,932	35,82,757		
अगस्त	34,97,482	1,16,886	36,14,368	2,656	31	245	2,932	36,17,300		
सितंबर	35,96,705	1,16,882	37,13,587	2,656	31	245	2,932	37,16,519	24,663	37,41,182
अक्टूबर	36,21,894	1,16,886	37,38,780	2,656	31	245	2,932	37,41,712		
नवंबर	36,88,660	1,16,994	38,05,654	2,656	31	245	2,932	38,08,586		
दिसंबर	37,23,456	1,16,901	38,40,357	2,656	31	245	2,932	38,43,289	24,670	38,67,959
जनवरी	38,21,484	1,15,871	39,37,355	2,656	31	245	2,932	39,40,287		
फरवरी	39,11,043	1,14,579	40,25,622	2,656	31	245	2,932	40,28,554		
मार्च	40,32,699	1,14,851	41,47,550	2,656	31	245	2,932	41,50,482	24,852	41,75,334
2008-09										
अप्रैल	40,49,938	1,14,497	41,64,435	2,656	31	245	2,932	41,67,367		
मई	40,99,258	1,15,131	42,14,389	2,656	31	245	2,932	42,17,321		
जून	41,15,905	1,15,471	42,31,376	2,656	31	245	2,932	42,34,308	24,647	42,58,955
जुलाई	41,52,509	1,15,714	42,68,223	2,656	31	245	2,932	42,71,155		
अगस्त	42,36,688	1,15,507	43,52,195	2,656	31	245	2,932	43,55,127		
सितंबर	42,91,634	1,15,451	44,07,085	2,656	31	245	2,932	44,10,017	24,647	44,34,664
अक्टूबर	43,68,899	1,15,441	44,84,340	2,656	31	245	2,932	44,87,272		
नवंबर	44,08,301	1,15,157	45,23,458	2,656	31	245	2,932	45,26,390		
दिसंबर	44,55,094	1,14,988	45,70,082	2,656	31	245	2,932	45,73,014	24,647	45,97,661

सीडी: जमा प्रमाणपत्र; एल₁, एल₂ और एल₃: चलनिधि समुच्चय; एनबीएफसी: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

टिप्पणी: 1. डाक घर जमाराशियों में डाक घर बचत बैंक जमाराशियां, डाक घर मीयादी जमाराशियां, डाक घर आवर्ती जमाराशि, अन्य जमाराशि तथा डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां शामिल हैं।

2. वित्तीय संस्थाओं में यहाँ आइएफसीआई, एग्जिम बैंक, आइआइबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, टीएफसीआई और आइडीएफसी शामिल किए गए हैं। अक्टूबर 2004 से वित्तीय संख्याओं में आइडीबीआई के आंकड़े शामिल नहीं हैं जो कि उसका बैंकिंग संस्था में रूपांतरण दर्शाता है।

3. जुलाई 2001 से वित्तीय संस्थाओं के सावधि मुद्रा उधार में कम्पनी और अन्यो से उधारराशियां शामिल हैं।

4. अगस्त 2002 से मीयादी जमाराशियों में वाणिज्यिक पत्र और अन्य शामिल हैं।

5. कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक जनता की जमाराशियाँ जुटानेवाली सभी एनबीएफसी कंपनियों की विवरणी के आधार पर जनता की जमाराशियों का अनुमान निकाला गया है।

6. एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित हैं।

7. आंकड़े अंतिम हैं। जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां पूर्ववर्ती उपलब्ध माह के अनुमान दुहराए गए हैं।